

Aditya Vision Limited

आदित्य विजन आदित्य विजन

CIN: L32109BR1999PLC008783 | GSTIN: 10AAECA0801E1ZS A 35E Listed Company

Date-February 08, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street** Mumbai-400 001

SCRIP Code: 540205

Sub: Newspaper advertisement pertaining to unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

Dear Sir/Mam

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement pertaining to unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023.

The advertisements were published in Economic Times (English) and Aj (Hindi) newspapers on February 08, 2024.

This is for your information and record.

For Aditya Vision Limited

Akanksha Arya **Company Secretary**







THE ECONOMIC TIMES | KOLKATA | THURSDAY | 8 FEBRUARY 2024 | WWW.ECONOMICTIMES.COM

PubDate: **08-02-2024**

Economy: Macro, Micro & More 111

Threshold to **Prepare Road DPRs** may be Hiked to ₹5L/km

Yogima Seth

New Delhi: The government plans to set a threshold of ₹5 lakh per km for awarding detailed project report (DPR) contracts to road consultants, as against the average of ₹1 lakh per km, as it moves from least cost to fixed cost model, said a senior government official.

The move is aimed at improving the quality of DPRs to bring them on a par with international standards and avoiding project delays, the official told ET on condition of anonymity.

The road transport and highways ministry has sought views from stakeholders on the proposed changes and will firm up new rules for DPRs soon, according to people in the know.

The need for a minimum base

Road to Efficiency Plans afoot to fix threshold for

awarding DPR contracts Min price Currently,

could be fixed at ₹5 lakh/km average cost is **WILL HELP IMPROVE QUALITY**



price, below which we will not award contracts, has arisen as bidders quote bare minimum price to get the contract but eventually make poor quality DPRs which leads to project delays and cost overrun," the official said.

The base price has been arrived at after taking into consideration global norms on salaries of good qualitv human resources and related factors, the official said, adding, "While a final decision is vet to be taken. we hope keeping a threshold will fetch us good quality DPRs."

The government believes the delay in project execution is because of inadequacy and poor quality in the project preparation stage which in turn leads to modification in the scope of work, variation and time and cost overrun.

While the fivefold cost escalation in DPRs, if agreed upon, would mean an additional burden on the exchequer, the government believes the benefits of quality DPRs and the savings made thereof will outweigh

the additional cost burden. 'The projects will not be inordinately delayed. So while there will be savings on the cost overrun, we will also save significantly on the civil cost of maintenance and repair of poor quality roads because of poor DPRs," said another government official.

It is estimated that India spends only 0.1-0.5% of the total project cost on DPRs compared to 5-10% in developed countries. This results in up to 25% cost overrun in India compared to 6-8% in other countries where DPR standards are much higher and quality-cum-cost based process is followed, instead of awarding the contract to the lo-

west bidder as is the case in India. The other changes under conside ration include relaxation on bank guarantees, awarding contracts on market determined prices.

yogima.sharma@timesgroup.com

Plans Afoot to **Push Green H2** for 24x7 Clean **Energy: Singh**

Our Bureau

New Delhi: The Ministry of New and Renewable Energy is working on a strategy to promote use of green hydrogen for providing round-theclock renewable energy. Power and renewable energy minister R K Singh chaired a meeting on Tuesday for utilisation of green hydrogen in conjunction with solar and

wind energy. The policy mechanisms being considered include one based on the 'contract for difference' (CfD) methodology, which is based on the difference between the market price and an agreed "strike price", the government said on Wednesday.

Representatives from NTPC, Central Electricity Commission, and Solar Energy Corporation of India, were also present in the ministry.

Potential options for using green hydrogen as a storage medium for supporting round-the-clock power and peak power demand were discussed along with providing $government \, support for \, such \,$

projects India's National Green Hydrogen Mission aims for at le ast5 million metric tonnes of annual production capacity by 2030 with renewable energy as the source.

STICKING TO STANCE AT UPCOMING 13TH MINISTERIAL CONFERENCE

Zone: KolkataCity

India to Oppose Taking Up Non-trade Issues at WTO

Feels protectionist trade barriers shouldn't be erected in guise of sustainable development and can be discussed at separate for a

MC13 focus on agri, fish

reforms, trade 8

Our Bureau

New Delhi: India will stick to its stance and oppose any negotiation mandate on non-trade issues such as environment, gender and micro, small and medium enterprises (MSMEs) at the upcoming 13th ministerial conference of the World Trade Organization (WTO),

New Delhi is of the view that protectionist trade barriers should not be erected in the guise of sustainable development and there are different multilateral for a such as the United Nations where these issues can be discussed.

"Issues like environment and labour are non-trade issues. These are non-negotiable at WTO. We

Trade Winds

EU, US want formal WTO talks on MSME, investment, gender, labour environment

Non-trade issues have trade implications, says India

▶ Unilateral measures like CBAM can't be discussed Investment facilitation

not in WTO mandate > All eyes on US, EU diverse positions on agri issues

are sticking to that stand," said an official. "These are not trade developed nations are pushing to the UN to discuss these

cations. The official added that India is against linking issues such as MSMEs and gender with trade. WTO's MC13 will be held from Fe-

issues but they have trade impli-

begin formal talks on such nontrade issues

On the inclusion of issues related to economic empowerment of women at the WTO talks, the official said India believes that this is a social and domestic matter, and thebruary 26 to 29 in Abu Dhabi and re are specialised conventions of

"So, we will not agree to any work programme; we will agree to discussions to promote sustainable development but our rights and obligations should not be impacted," the official said.

The final agenda of the MC13 is expected to be finalised in the General Council meeting of the WTO next week in Geneva

Officials also said that India is likely to oppose any negotiations on investments in the WTO as these fall outside the mandate of the global trade body and cannot be de-liberated in formal meetings.

'It will be a tightrope for India," said the official.

China, along with 100 other countries, is pushing for a Joint Initiative on Investment Facilitation for Development (IFD). As per the official, India is watchful of the different positions of the EU and the US on issues related to agriculture, especially market access.

Another official said that India is engaging with the EU to deal with

the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and also preparing the domestic industry to

comply with the norms. New Delhi is considering whether the tax can be collected in rupees and not euros, which can be

comply with the norms. 'We are engaging with the EU to find out how we can comply with that and how our industry and trade do not suffer from this tax," the

used to help domestic industry

official said.
The CBAM and deforestation laws are examples of dragging environmental issues into trade matters but the CBAM cannot be discussed at the ministerial, accor-

 $ding \, to \, the \, official.$ India and the EU are bilaterally discussing the issue.

AFTER TWO DECADES...

India, Lanka Jt Panel Meet to Take Grid Connectivity Ahead

Meeting likely this month to discuss green energy too: Lanka minister

Shilpa Samant

Goa: India and Sri Lanka's joint working committee on the power sector will likely meet this month to further discuss interconnectivity renewable energy collaboration, the island country's power and energy minister Kanchana Wijesekera told **ET**.

The two countries have been planning to connect their grid to trade power for almost two decades, but the deliberations have picked up pace in the last few years amid green energy ambitions of the countries

Technical reports are already being discussed with the officials from India's Central Electricity Authority (CEA), Power Grid Corporation of India Ltd and the Ceylon Electricity Board (CEB), ET had report-

ed earlier. The grid connection will likely be in a joint venture with Power Grid Corporation of

India. Technicalfeasibility studies have been done and a joint consultant for investment decisions will be appointed for the grid connection, Wijesekera, who is in the country to attend the ongoing India Energy

Week, said. "Investment decisions are yet to be made for which we want to appoint consultants. The consult ants will be appointed from both ends. I would say a common consulting firm to un-

derstand the financial requirements and agree on the investment, and how the investment is going to take place," he said. Discussions will also

take place on ongoing projects, especially the solar energy project, where India's NTPC Ltd is in partnership with the Cevlon Electricity Board. Power purchase agreements on the first phase of the 130-MW power project could be signed soon, he said.

OFFSHORE WIND

The Sri Lankan government is assessing the potential the country has in the offshore wind segment after which it will invite an expression of interest, where it wants Indian companies to participate.

There are companies that have shown interest, including Indian compa-

nies, Wijesekera said. Feasibility studies for offshore wind energy are on because the potential that Colombo may have would far exceed its requirements and it's going to be a surplus, he said.

shilpa.samant@timesgroup.com



Indian Railways E-Precurement Portal (IREPS) www.ireps.govin for transportation of Heavy Melting Scrap (HMS). 1. Name of work with its location, Qty. and completion period.: Transportation of Heavy Melting Scrap (HMS) consisting of Cond. Wheel Sets, Cond. Wheel Discs/Centre and Cond. Akles from various Railways Units to Rail Wheel Plant, Vill-Bela, P.O. Arvind Nagar, Dist: Saran. Bihar under distance slab 0-500 KM (Taking average lead distance 250KM). Completion period: 12 months from the date of issuance of LOA. 2. Approx. cost of the work: Rs.1,53,03,172.50 3. Earnest Money to be Deposited: Rs. 2,26,500.00 4. Tender closing date and time: 0.4,03,2024 up to 14.15 hrs. 5. Website particulars. Notice Board location where complete details of tender can be seen and address of the office form where the tender form can be purchased etc.: For full details and submission of bid kindly visit Portal (IREPS) www.ireps.gov.in. The prospective firms/bidders submitting bid are advised to remain in tunch with IREPS portal (www.ireps.gov.in) for louch with IREPS portal (www.ireps.gov.in) for ACF 3/www.irejs.govini. Tile pixysective limis diders submitting bid are advised to remain i uch with IREPS Portal (www.ireps.gov.in) for dates including Addendum / Corrigendum ancellation with respect to the above tende cause no such any notice / informatio noerned that shall be published in newspaper. rincipal Chief Materials Manager/RWP/Bela RWP/CPRO/Advt/2023-24/106



Y-0-Y: 627.12% Q-0-Q: 519.79%

Turnover

Up (%)

PAT **Up (%)** Y-0-Y: 1821.40%

CIN: L29219GJ2005PLC045508

Q-0-Q: 1081.38% **EPS** (Rs.) Rs.

12.19/-(Quarterly Annualized)

Financial Performance

	-					
Particulars (Rs. in Millions)	9M CY	9M PY	Y-O-Y % Increase	Q3 CY	Q3 PY	Q-O-Q % Increase
Revenue	8149.54	1120.79	627.12%	3264.58	526.72	519.79%
EBITDA	1234.60	68.78	1695.00%	583.86	44.89	1200.65%
PBT	1039.44	58.56	1675.00%	510.08	39.19	1201.56%
PBT Margins (%)	12.75%	5.22%	753 bps	15.62%	7.44%	818 bps
PAT	714.90	37.21	1821.40%	337.13	28.54	1081.38%
PAT Margins (%)	8.77%	3.32%	545 bps	10.33%	5.42%	491 bps

- 100% Revenue of the Company is from Copper forgoing products.
- Company has Integrated Manufacturing Quality and Research & Development Lab.

Date: February 08, 2024 Place: Jamnagar

For, Sprayking Limited (Formerly known as Sprayking Agro Equipment Limited) Hitesh Pragajibhai Dudhagara (Managing Director)

ADITYA VISION LIMITED

CIN - L32109BR1999PLC008783

Reg. office- Aditya House, M-20, Road No. 26, S K Nagar, Patna-800001, Bihar

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

Quarter ended

(All amounts in INR Crores except EPS)

Year ended

Nine month ended

		30.00.000					
		31-Dec-23	30-Sep-2023	31- Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
	Particulars	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	414.15	315.60	318.26	1,372.35	1,017.26	1,325.16
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	28.99	12.32	23.89	90.64	71.84	85.99
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28.99	12.32	23.89	90.64	71.84	85.99
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22.17	9.63	19.52	69.22	57.36	64.14
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	22.17	9.63	19.52	69.22	57.36	64.14
6.	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/-each)	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03
7.	Earnings per share (in Rs.)						
	(a) Basic	18.43	8.00	16.23	57.54	47.69	53.32
	(b) Diluted	18.43	8.00	16.23	57.54	47.69	53.32

Notes to Financial Results:

The above unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on February 07, 2024.

The unaudited financial results have been reviewed by the statutory auditors of the Company, as required under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended.

- These unaudited financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards 34 'Interim Financial Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent possible. The employee benefit expense for this quarter includes Rs. 2.00 crores related to share-based payment expenses for the
- Employee Stock Options (ESOPs) that were granted to employees in the previous year ended on March 31, 2023. The Company opened 2 new retail showrooms in current quarter taking its total store count to 132 as at December 31, 2023.
- The Company's business activity falls within a single primary business segment of Retail Business of electronic products such as Consumer Electronics, home appliances, mobility and IT products. As such reporting is done on a single segment basis.
- Sale of Company's products are seasonal in nature and hence it is not strictly comparable sequentially.
- The unaudited financial results of the company are also available on stock exchange website **www.bseindia.com** and on the company website www.adityavision.in For and on behalf of Board of Directors of

Akanksha Arya (Company Secretary)

Aditya Vision Limited

पावरग्रिड

NOTICE TO SHAREHOLDERS Sub: Transfer of equity shares of the Company to In-

and Protection Fund (IEPF) Authority. This Notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as

amended from time to time ("the Rules") The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of shares, in respect o which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more, in the name o the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has, so far

transferred in favour of IEPF Authority, on respective due dates, all shares in respect o which Final dividend for the financial year 2015-16 or before had remained unclaimed fo a period of seven consecutive years or more. The Company has now, vide its letter dated 01.02.2024 communicated individually, the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred in favour of IEPF Authority in April, 2024 for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim unclaimed dividend amount(s) before it is credited to IEPF account. Shareholders are requested to forward the requisite documents as mentioned in said communication to the Company's Registrar and Share Transfer Agent to claim the unclaimed dividend amount(s) on or before 09.03.2024. The list of shareholders whose shares are liable for transfer in favour of IEPF Authority displayed on the website of the Company at https://www.powergrid.in/en/details shareholders

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 09.03.2024, the Company, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, shall be transferring the said unpaid dividend amount(s) and related shares to IEPF without further notice. Please note that upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with the dividend from IEPF Authority as per the Rules available at www.iepf.gov.in. Pursuant to Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement

Regulations, 2015, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Hence shareholders are requested to dematerialize their physical holding. Those shareholders whose folio(s) do not have complete details relating to their PAN and Bank Account, o where there is any change in the bank account details provided earlier, have t compulsorily furnish the details to RTA/ Company for registration/updation. For any information/ clarification on this matter, concerned shareholders may write to the

Company at investors@powergrid.in or contact Company's Registrar & Share Transfe Agents M/s KFin Technologies Ltd. Unit: Power Grid Corporation of India Limited Selenium Tower-B, Plot. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500032 For Power Grid Corporation of India Limited

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

Corp. Off.: Saudamini, Plot No.-2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

Date: 06.02.2024

Regd. Off.: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-11001 Nebsite: www.powergrid.in, Email ID: investors@powergrid.in, CIN: L40101DL1989GOI03812

A Maharatna PSU

Place: Patna Date: 07.02.2024

Mrinal Shrivastava

Company Secretary

साधनसेवियो-रसोइयों की ट्रेनिंग

चयनित 76 प्रखंड साधनसेवियों एवं

पटना। राज्य के सभी जिलों से संचालन में गुणवत्ता, मात्रा, समयबद्धता, पारदर्शिता एवं सुरक्षा



संस्कृत-मदरसा शिक्षकों के अंतर वेतन

की राशि के भुगतान को कोषांग

कर्मियों का वेतन निर्धारण प्रपत्र में वेतन िलए 19.5 अरब रुपये की राशि पहले

अनुदान निर्धारित कर संबंधित ही उपलब्ध करायी जा चुकी है।

मध्याह्न भोजन योजना के 76 रसोइयों की दो दिनों की ट्रेनिंग बुधवार को यहां दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में शुरू हुई।

पटना। राज्य के अराजकीय प्रस्वीकत

संस्कृत स्कृलों एवं मदरसों के शिक्षक-

कर्मियों के पंचम एवं षष्ठम वेतन पनरीक्षण

के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के लिए पूर्व

पर्व अंकेक्षण कोषांग के गठन के आदेश

शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार

के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।इसके मृताबिक

यह कोषांग आंतरिक वित्तीय सलाहकार पद

के अधीन कार्य करेगा। इसमें सहायक

आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं वित्त

विभाग द्वारा प्रतिनियक्त पांच अंकेक्षक होंगे।

कोषांग में विभाग के एक प्रशाखा

पदाधिकारी व सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

की सेवा आवश्यकतानुसार ली जायेगी।

लेखा शाखा से भी एक कर्मी एवं

आवश्यकतानुसार दो डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं

दो आई. टी. बॉय की प्रतिनियुक्ति की

कार्यरत एवं सेवानिवृत शिक्षक-

विभिन्न भाषा विषयों की परीक्षा होगी। दूसरी

पाली में कला संकाय के परीक्षार्थियों की

मनोविज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के परीक्षार्थियों

की इंटरप्रेनरशिप की परीक्षा होगी।

अंकेक्षण कोषांग का गठन किया गया है।

क्षमतावर्द्धन के हेतु साधनसेवियों एवं मध्याह्न भोजन योजना के रसोईया-सहायकों की

प्रधानाध्यापक द्वारा मूल सेवापुस्त के साथ

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)

को अग्रसारित किया जायेगा। वेतन

निर्धारण प्रपत्र की जांच एवं जिला शिक्षा

पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित

अभिलेख के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र

पर्व अंकेक्षण कोषांग को विशेष द्त के

जरिये उपलब्ध कराया जायेगा। उसके

बाद उसकी जांच होगी। जांचोपरांत

संबंधित अभिलेख के साथ वेतन निर्धारण

प्रपत्र जिला कार्यालय को वापस किया

जायेगा । जिला कार्यालय द्वारा वेतन विपत्र

तैयार कर सत्यापन के लिए पुन: पूर्व

अंकेक्षण कोषांग को भेजा जायेगा।

उसकी जांच कर कोषांग जिला कार्यालय

को भेजेगा तथा उसके बाद भुगतान होगा।

प्रस्वीकृत संस्कृत स्कूलों एवं मदरसों

के शिक्षक-कर्मियों के पंचम एवं षष्ठम

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उनके

अंतर वेतन की राशि के भुगतान के

आपको बता दूं कि अराजकीय

ट्रेनिंग का आयोजन मध्याहन भोजन योजना निदेशालय ने किया है।

संबंधित अधिकारी शामिल थे।

इसका शुभारंभ करते हुए मध्याह्न

भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इसके आयोजन के औचित्य की चर्चा की। यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण कार्य हेत् फिल्म भी तैयार किया गया है। इससे रसोईया-सहायकों की ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भारतीय मानक ब्यूरो पटना शाखा के निदेशक सुमन कुमार गप्ता. यनिसेफ के पोषण पदाधिकारी डॉ. संदीप घोष, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट श्रीमती वृन्दा किराडु, पोषाहार विशेषज्ञ श्रीमती प्रगति, सहायक कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती संगीता गिरि. यूनिसेफ के राज्य सलाहकार प्रकाश सिंह. भारतीय मानक ब्यूरो के पटना शाखा के संयुक्त निदेशक वी. के. गौरव एवं यूनिसेफ सलाहकार श्रीमती पल्लवी कुमारी सहित सभी

बैंक मैनेजर ने दर्ज करायी प्राथमिकी

पटना (निप्र)। पीरबहोर थाना की सतर्कता के कारण अपराधकर्मी एटीएम से पैसा निकालने मे रहे नाकामयाब। हालांकि इस संबंध में बैक मैनेजर ने पीरबहोर थाना मे प्राथमिकी दर्ज करायी है। इस संबंध मे थानाध्यक्ष पीरबहोर ने बताया कि बधवार की शाम ४ बजे दो अपराधियो द्वारा बीएन कॉलेज के समीप स्थित पंजाब नेशनल बैक के एटीएम मे घस का एटीएम का पैनल तोड़कर रूपये निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी अलार्म बज गया जिसके बाद मिली सचना पर पीरबहोर थाना की पुलिस आनन फानन मे अपराधकर्मी फरार हो चुके थे। बताया जाता है कि एटीएम मे लगे सीसीटीवी कैमरे मे दोनो अपराधियो की तस्वीर कैद हो गयी है।वही पंजाब नेशनल बैक के ब्रांच मैनेजर ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी है वही पुलिस कारवाई

नियोजित शिक्षकों एवं बिहार

पर कड़ी काररवाई होगी।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों के प्राथमिकता के आधार पर वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को दी गयी समय-सीमा बधवार को समाप्त होगी।

पर होगी काररवाई

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

नहीं होने पर जवाबदेह अधिकारियों

पटना।शिक्षकों का वेतन भुगतान

शिक्षा विभाग के (प्रशासन)-सह-अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक वेतन भगतान में अनावश्यक विलंब एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं है। इसके लिए जवाबदेह पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक काररवाई की जायेगी।

शिक्षकों को वेतन नहीं तो अधिकारियों 696 करोड़ से स्कूलों में होगी बेंच-डेस्क की खरीदारी

पटना (आशिप्र)। राज्य के सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क की खरीदारी बेंच-डेस्क की आपूर्ति का कार्यादेश जारी नहीं करेंगे, तो जिला पदाधिकार्र के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 696 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गयी अपने स्तर से खरीद करने का निर्णय ले सकते हैं।

है। यह राशि जिलावार जारी हुई है। संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों का चयन करेंगे,जहां बेंच-डेस्क की जरूरत है। बेंच-डेस्क की खरीद इस सीमा तक करने के लिए कहा है कि 31 मार्च की स्थिति में कोई बच्चा फर्श पर न बैठे। इसके पीछे शिक्षा विभाग की यह मंशा है कि हर हाल में प्रत्येक बच्चा फर्श पर न बैठे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच- डेस्क खरीद के लिए 559 करोड़, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों खरीद के लिए 137 करोड रुपये जारी किये गये हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों को दो टुक कहा है कि विद्यालयवार बेंच-डेस्क की सूची बनाकर ही राशि जारी करे। बेंच-डेस्क की खरीद के लिए पांच हजार रुपये प्रति सेट निर्धारित की गयी है। खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों को समृचित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की हैं। राशि का भुगतान तीन दिन के अंदर करने के लिए कहा है। इसके लिए यह जरूरी होगा कि बेंच-डेस्क की गणवत्ता के संबंध में प्रधानाध्यापक संतुष्ट हो लें। राशि

मिलने के 25 दिनों के भीतर प्रधानाध्यापक या प्राचार्य



न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगडिया

(जिला राजस्व शाखा)

सूचना

चूँ बजरिये नोटिस निम्नलिखित क्रमांक 01 से 10 के व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत विभिन्न वादों में जप्त किये गए वाहनों का अधिहरण वाद चल रहा है। अतः इस नोटिस के माध्यम से आप सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि वाद की सुनवाई की तिथि 23.02.2024 को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें अन्यथा बाध्य होकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समृचित निर्णय लिया जायेगा।

थाना कांड सं0

वाहन स्वामी का

वाहन का

	पाद सा	नाम		नान प्रकार		विवरण
1	2	3	4		5	6
1	7/23-24	रेल थाना खगड़िया	कांड सं0-11/20	अज्ञात	मोटर साईकिल	हीरो होण्डा मोटर साईकिल वाहन सं0– BR34B-0634
2	24/23-24	उत्पाद	547सी3 / 2023	निरज सिंह	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR39W-0539
3	28/23-24	उत्पाद	543सी3 / 2023	संजीव कुमार	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR34H-9020
4	30/23-24	उत्पाद	638सी3 / 2023	गजेन्द्र कुमार	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR11J-3335
5	40/23-24	खगड़िया थाना	660 / 2023	अज्ञात	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR34M-4904
6	41/23-24	उत्पाद	791सी03 / 2023	अज्ञात	एक पुराना साईकिल	-
7	47/23-24	उत्पाद	884सी3 / 2023	राज कुमार	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR19N-3912
8	50/23-24	उत्पाद	915सी3 / 2023	अमित कुमार	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR34T-6202
9	55/23-24	उत्पाद	971सी3 / 2023	शमसेर	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR34K-8618
10	57/23-24	उत्पाद	1067सी3 / 2023	आलोक कुमार	मोटर साईकिल	मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0 BR34U-4782

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR- 016827 (Revenue) 2023-24

अपर समाहर्त्ता–सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

वाहन का चेचिस

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

वाहन का इंजन

वाहन

कुलपति से मिले शिक्षक, जताया आभार

सिन्हा से मिल कर बी. एन. कॉलेज के तीन

रंजन ने बताया कि पुटा चुनाव में मिली पटना। पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ऐतिहासिक जीत के बाद जनरल बॉडी तथा का एक प्रतिनिधिमंडल कुलपित प्रो. के. सी. सभी कार्यकारिणी की मीटिंग में यह सर्वोपरि मांग थी। परंतु, पूर्व कुलपति के कार्यकाल में

शिक्षकों को यह

न्याय नहीं मिल

पाया, लेकिन

बावजद लागतार

रहा। तत्पश्चात

वर्तमान

कुलपति प्रो. के.

सी. सिन्हा के

कार्यकाल में यह

न्याय शिक्षकों

को मिल पाया।

इसके

करता

संघ

संघर्ष



शिक्षकों की प्रोन्नित के लिए आभार जताया। शिक्षकों को मिला यह न्याय पूरे बिहार के दरअसल, बी. एन. कॉलेज के तीन लिए नजीर है। शिक्षकों का प्रोमोशन मई, 2023 से रुका

हुआ था। पटना विश्विद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा। डेमोक्रेटिक पैनल के मैनिफेस्टो में यह नंबर वन मुद्दा था। पुटा के महासचिव प्रो. विभाष

पुटा के महासचिव प्रो. विभाष रंजन ने बताया कि अन्याय एवं अत्याचार के विरुध जीत सत्य की होती है। इसके लिए कुलपति का उन्होंने आभार जताया है तथा शिक्षकों

का समर्थन को लिए धन्यवाद दिया है।

बिहार 🎆 सरकार

थाना का

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, नवगछिया

आम स्चना

मूँ बजरिये इस कोर्ट नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 56 (ख) (ग) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी / विदेशी शराब का परिवहन व भंडारण करने के आरोप में निम्नलिखित वाहन एवं भवन / भूखण्ड मिन्न–भिन्न थाना काण्डों / उत्पाद अमियोग में जप्त / सील (Seal) कर अधिहरण प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, नवगछिया / उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप विविध उत्पाद अधिहरण वाद प्रारंभ किया गया। उक्त वादों में वाहन मालिक एवं शराब बरामद स्थल के जमीन मालिक / जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत किये जाने के बावजूद, उनके द्वारा जप्त / सील (Seal) वाहन एवं भवन / भुखण्ड के लिए कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त जब्त / सील (Seal) वाहन एवं भवन / भुखण्ड अधिहरण योग्य है।

इसी क्रम में नव संशोधित बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं नियमावली 2022 का नियम 12 (क) के संशोधित नियमावली 2023 के अंतर्गत जब्त वाहन कोशास्ति (जर्माना) राशि के आधार पर जब्त वाहन को विमक्त किया जाना है एवं 12 (ख) के अन्तर्गत सीलबंद किसी परिसर / भवन / भखण्ड को सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार शास्ति (जुर्माना) राशि का निर्धारण किया जायेगा। परन्तु किसी भी दशा में न्यूनतम एक लाख रूपये से कम नहीं होगा। अधिहरण योग्य जब्त वाहन एवं सीलबंद परिसर/भवन/भूखण्ड का विवरण निम्नलिखित है:-

वाहनमालिक का नाम/पता

ч		आधहरण वाद सं0	काड स0						
त (री हा	1	135/23-24	रंगरा238/2 3	Pito Vassumi, S/O- Vikheho, At- Am Road, Ps- Mokokchung, State- Nagaland, पिन-798601	मोटर कार	NL02C2914	27910115380426A	600252MXZP73855	
ों त				Sana Ullah, S/O- Habibur Rahaman, At-Bithanaullanchal Krityananda Dist- Purnia,	ग्लेमर मोटर साइकिल	BR11N8546	JAO6EJCGFO5486	MBLIAO6ACCGFO5450	
ति ए न	2	136 / 23-24	ভীলৰত্বা 68 / 23	गौतम कुमार, पे0—लालो भगत, सा0—लूरी दास टोला, थाना—ढोलबज्जा, जिला— भागलपुर। पिन— 853204	मोटर साईकिल	BR43R3746	JAO6ERKGF65128	MBLIAW107KGF51834	
े ति है				रामदेव साह, पे0— सुन्दर साह, सा0— नवगछिया, थाना—नवगछिया, जिला— भागलपुर। पिन— 853204	मोटर साईकिल	BR10M5648	DJGBUF15475	MD2DHDJZZUCF54637	
	3	137 / 23-24	परबत्ता 188 / 23	तिलक शर्मा पे0— आर शर्मा, सा0— महाकाल दारा, थाना—कलिमपोंग, राज्य— पश्चिम बंगाल, पिन— 734301	पिकअप भान	WB773651	0302A80300N	03101537	
	4	138 / 23-24	नवगछिया 350 / 23	रतनेश कुमार पे0— उमेश दास, सा0— नियर दुर्गा मंदिर वार्ड नं0— 08, बाजार टोला जिला— मधेपुरा, पिन— 852113	बेलोरो	BR11GC1795	TBJ1K88896	MA1ZN2TBKJ1K84385	
	5	139 / 23-24	ढोलबज्जा 119 / 23	रंजीत मंडल पे0— जवाहर मंडल, सा0— बोड़वा, थाना— परबत्ता, जिला— भागलपुर पिन— 853204	मोटर साइकिल	BR10AL1593	HA11EXN9E05998	MBLHAW10XN9E06519	
	6	140 / 23-24	परबत्ता 68/23	रबिन कुमार पे0– मॉंगन महालदार, सा0– भीम दास टोला,(तिनटंगा) थाना– रंगरा, जिला– भागलपुर।	स्कारपियो	BR10PB0840	TDH4K86028	MA1TA2TDKH2K40454	
	7	141 / 23-24	भवानीपुर 216 / 23	अभिषेक आनंद पे0— अशोक साह, सा0— महिसौरी जमुई, जिला— जमुई। पिन— 811307	पिकअप	BR40B6242	GLC1E59798	MA1ZP2GLKC1E40078	
	8	142 / 23-24	खरीक94 / 2 3	अमित कु0 बौधरी पे0— रघुनंदन बौधरी, सा0— कठैला, थाना— खरीक, जिला— भागलपुर।	साइकिल	-	12	(2)	
	9	149 / 23-24	रंगरा 119 / 23	हिरो कुमार पे0- कल्लर मंडल, सा0- सिमरिया, थाना- रंगरा, जिला- भागलपुर।	साइकिल	-	-	-	
	10	143 / 23-24	कदवा 116/23	मो0 अफजल पे0— मो0 सागर, सा0— रहुआ, थाना— बिहारीगंज जिला— मधेपुरा।	मोटर साइकिल	BR43AA5129	HA11E7PHEA8125	MBLHAW219PHE44968	
	11	144 / 23-24	नवगछिया 351 / 23	संजय कुमार पे0— विभूति मंडल, सा0— अरजपुर, थाना— चौसा, जिला— मधेपुरा।	स्कारपियो	BR43AA5129	HA11E7PHEA8125	MBLHAW219PHE44968	
	12	146 / 23-24	परबत्ता 165 / 23	KUISA DHAMIN, S/O- TUMIYA DHAMIN, AT- BALRAMPUR, PO- BALRAMPUR, DIST- KATIHAR- 853417	मोटर साइकिल	BR39AJ6827	DHXRNK84639	MD2B68BX6NRK12530	
	13	146 / 23-24	ढोलबण्जा 12 / 23	राजकिशोर मंडल पे0— योगेन्द्र मंडल, सा0—झौहरी बहदुरा, रूपौली, जिला— पूर्णियाँ, पिन— 854204	मोटर साइकिल	BR11AN2798	HA10AGKHG81078	MBLHAW082KHG90625	
	14	74 / 23-24	खरीक 279 / 22	सरिता देवी पति— स्व० खंतर सिंह, सा०— अम्मो, थाना— खरीक, जिला— भागलपुर।	जब्त शराब स्थल	मौजा—खरीक 47/1 खाता—493	खेसरा–5373	रकवा— 0–01 डि0	

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है यदि इस जब्त वाहन एवं सीलबंद परिसर/भवन/भुखण्ड में किन्हीं व्यक्ति/संस्था का हित निहितहो तो नवसंशोधित नियमावली 2022 के संशोधित नियमावली 2023 के अंतर्गत जब्त वाहन को शास्ति (जुर्माना) राशि के आधार पर जब्त वाहन को विमुक्त किया जाना है एवं 12 (ख) के अन्तर्गत सीलबंद किसी परिसर/भवन/भूखण्ड को सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार शास्ति (जुर्माना) राशि का निर्धारण किया जायेगा। जब्त वाहन एवं सीलबंद परिसर/भवन/भूखण्ड के स्वामी नोटिस गजट प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना जब्दा वाहन एवं सीलबंद परिसर/भवन/भूखण्ड का शास्ति (जुर्माना)राशि प्रपत्र-IV वाहन हेतु एवं प्रपत्र-V सीलबंद परिसर /भवन / भूखण्ड हेतु अनुमंडल न्यायालय,नवगछिया में दाखिल करेंगें। अन्यथा अनुपस्थित होने की स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त जब्त वाहन एवं सीलबंद परिसर/भवन/भूखण्ड से आपको कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात् उक्त वाहन एवं सीलबंद परिसर/भवन/भूखण्ड को अधिहरण/नीलामी कर

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

PR- 16891 (District) 2023-24

147 / 23-24

इसे आज दिनांक.-03.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय के मोहर से जारी किया गया। विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

थाना– भवानीपुर, जिला– भागलपुर।

अनुमंडल दण्डाधिकारी नवगछिया।

खसरा-5710

जमाबंदी सं0- 1968

14 निष्कासित, 5 फर्जी

परीक्षार्थी गिरफ्तार (आज शिक्षा प्रतिनिधि) पटना। राज्य में इंटरमीडिएट की परीक्षा में बुधवार को नकल के जुर्म में 14 परीक्षार्थी निष्कासित किये गये। दूसरे के बदले परीक्षा में शामिल पांच फर्जी परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किये गये हैं। दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए पकड़े गये फर्जी परीक्षार्थियों में भोजपुर एवं लखीसराय में दो-दो तथा जहानाबाद में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तारी हुई है। नकल के जुर्म में जहानाबाद से चार गरीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित किये गये हैं। वैशाली से दो परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। सारण, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, बेगुसराय, पुणिया, गोपालगंज एवं रोहतास से एक-एक परीक्षार्थी को निष्कासित किया गया है। गुरुवार को पहली पाली में विज्ञान, वाणिज्य, कला एवं वोकेशनल के परीक्षार्थियों की अनिवार्य विषय समूह के तहत

डीएम व एसएसपी से मिला प्रतिनिधिमंडल

पटना (आससे)। मेजर जेनरल मकेश अग्रवाल वीएसएम के नेतत्व में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी पटना शीर्षत कपिल अशोक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा से मुलाकात की एवं सरकार की विकासात्मक एवं लोक.कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।यह प्रतिनिधि मंडल बिहार राज्य के अपने पाँच दिवसीय 5 से 9 फरवरी अध्ययन टर पर है। उनका यह बिहार परिभ्रमण अण्डरस्टैंडिंग इंडिया मॉडयल का भाग है। डेलिगेशन में भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय पीएसय एवं मित्र देशों ब्राजील, यगांडा, नाइजीरिया, म्यांमार तथा श्रीलंका के अधिकारीगण शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पटना जिले में अपने भ्रमण को काफी रोचक एवं सफल बताया। इन अधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल द्वारा पंचायत, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थाना, जीविका केन्द्रों एवं विद्यालय भ्रमण के दौरान दिखाई पड़ा। छात्र छात्राओं, जीविका दीदियों सहित आम जनता द्वारा योजनाओं से मिले लाभ पर जीवन स्तर में काफी सधार आने की बात कही गई। जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में अनेक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय विकसित बिहार के सात निश्चय, मद्य.निषेध, बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम्, जल जीवन हरियाली अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने आम जनता की जीवन शैली में काफी सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यदि किसी व्यक्ति को कोई सेवा प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमारे राज्य बिहार में एक जिम्मेदार प्रणाली क्रियाशील है। लोक शिकायतों के समयबद्ध ढंग से निवारण हेतु एक सुविकसित तंत्र कार्यरत है।

को मिले उचित सम्मान : राज रानी (निज प्रतिनिधि) **पटना ।** पटना के महिला थानाध्यक्ष के रूप

में राज रानी ने अपना पदभार ग्रहण किया।थाना परिसर में पुलिसकर्मियों द्वारा अंग वस्त्र, मेमेंटो और फुल माला पहनाकर



स्वागत किया गया । थानाध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने पुलिसकर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला। थानाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद राज रानी ने आज हिंदी

दैनिक के वरीय पत्रकार से बात करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी महिलाओ को उचित सम्मान मिले , किसी भी तरह की समस्या को अविलंब दूर किया जाएगा।

वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला किसी भी वक्त हमसे आकर मिल सकती है हमारा प्रयास होगा हर पीड़ित को न्याय दिलाना, इसके लिए किसी भी समय पीडित महिला अपनी समस्या और पीड़ा के साथ मुझसे मिल सकती है मैं सदैव तत्पर रहूंगी।

ADITYA VISION LIMITED

CIN - L32109BR1999PLC008783

Reg. office- Aditya House, M-20, Road No. 26, S K Nagar, Patna-800001, Bihar

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (All amounts in INR Crores except EPS)

	(
		Quarter ended			Nine month ended		Year ended	
		31-Dec-23	30-Sep-2023	31- Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	
	Particulars	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total Income from Operations (Net)	414.15	315.60	318.26	1,372.35	1,017.26	1,325.16	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	28.99	12.32	23.89	90.64	71.84	85.99	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28.99	12.32	23.89	90.64	71.84	85.99	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22.17	9.63	19.52	69.22	57.36	64.14	
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	22.17	9.63	19.52	69.22	57.36	64.14	
6.	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/-each)	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03	
7.	Earnings per share (in Rs.)							
	(a) Basic	18.43	8.00	16.23	57.54	47.69	53.32	
	(b) Diluted	18.43	8.00	16.23	57.54	47.69	53.32	

Notes to Financial Results:

- The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on February 07, 2024.
- The unaudited financial results have been reviewed by the statutory auditors of the Company, as required under regulation 33 of the SEBI
- (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended. These unaudited financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards 34 'Interim Financial Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent
- The employee benefit expense for this quarter includes Rs. 2.00 crores related to share-based payment expenses for the Employee Stock Options (ESOPs) that were granted to employees in the previous year ended on March 31, 2023.
- The Company opened 2 new retail showrooms in current quarter taking its total store count to 132 as at December 31, 2023
- The Company's business activity falls within a single primary business segment of Retail Business of electronic products such as Consumer
- Electronics, home appliances, mobility and IT products. As such reporting is done on a single segment basis. Sale of Company's products are seasonal in nature and hence it is not strictly comparable sequentially
- The unaudited financial results of the company are also available on stock exchange website www.bseindia.com and on the company website www.adityavision.in For and on behalf of Board of Directors of

Sd/-

Place: Patna Date: 07.02.2024

Akanksha Arya (Company Secretary)

Aditya Vision Limited